

Or (अथवा)

Write a detailed note on the powers and functions of IRDA. **12**

IRDA की शक्तियों तथा कार्यों पर एक विस्तृत टिप्पणी लिखिए ।

12. Why is the non-life insurance market smaller than life insurance market ? Discuss major types of insurance in non-life insurance sector.

गैर-जीवन बीमा बाजार जीवन बीमा बाजार से छोटा क्यों है ? गैर-जीवन बीमा क्षेत्र में बीमा के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए ।

Or (अथवा)

Highlight major functions of a bank and reforms introduced in banking sector. **12**

बैंकिंग क्षेत्र में पेश किये गये बैंक के प्रमुख कार्यों तथा सुधारों पर प्रकाश डालिए ।

Roll No.

Exam Code : J-19

Subject Code—0558

**M. Com. (Part II) (Second Years)
EXAMINATION**

(Batch 2009 to 2017 Main & Reappear)

INSURANCE AND BANKING

MC-207-F

Time : 3 Hours

Maximum Marks : 70

Section A

खण्ड 'अ'

Note : Attempt any *Seven* questions.

किन्हीं सात प्रश्नों के उत्तर दीजिए ।

1. Why do many persons not opt for insurance ?

बहुत से लोग बीमा के लिए क्यों नहीं चुनने योग्य होते हैं ?

2. Highlight the features of money-back policies.
मनी-बैंक पॉलिसियों के तत्वों पर प्रकाश डालिए ।
3. Discuss recent trends in Indian Insurance sector.
भारतीय बीमा क्षेत्र में नवीन प्रवृत्तियों का वर्णन कीजिए ।
4. Explain the concept and benefits of bank assurance.
बैंक एश्योरेंस की अवधारणा तथा लाभों का वर्णन कीजिए ।
5. Which are the major legal issues in insurance sector ?
बीमा क्षेत्र में प्रमुख वैधानिक मुद्दे कौनसे हैं ?
6. Discuss the major provisions of Banking Regulation Act, 1934.
बैंकिंग नियमन अधिनियम, 1934 के प्रमुख प्रावधानों का वर्णन कीजिए ।
7. Why should a bank ask for securities while granting loan to a person ?
किसी व्यक्ति को ऋण देते समय प्रतिभूतियों के लिए बैंक को क्या पूछना चाहिए ?

8. Explain the objectives and provisions of contract of guarantee.
गारण्टी के अनुबन्ध के उद्देश्यों तथा प्रावधानों का वर्णन कीजिए ।
9. How does good relationship with customers benefits the bankers ?
ग्राहकों के साथ अच्छे संबंध बैंकरों को कैसे लाभ पहुँचाते हैं ?
10. What are the causes of NPAS ?
NPAS के क्या कारण हैं ?

Section B

खण्ड 'ब'

Note : Attempt all questions.

सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए ।

11. Why was the Indian Insurance Sector Opened up ? How has the opening up of insurance sector affected the performance of LIC of India ?
भारतीय बीमा क्षेत्र क्यों खोला गया है ? भारतीय बीमा क्षेत्र के उद्घाटन ने भारत के LIC के प्रदर्शन को कैसे प्रभावित किया है ?

13. Discuss the various types of advantages provided by banks. How can the banks reduce the risk involved in them ?

बैंकों द्वारा दिये गये विभिन्न प्रकार के अग्रिमों का वर्णन कीजिए । बैंक उनमें निहित जोखिम कैसे कम कर सकते हैं ?

Or (अथवा)

What are the causes of NPAS in the banks ?
Discuss various tools available to them for managing NPAS. **11**

बैंकों में NPAS के क्या कारण हैं ? NPAS का प्रबन्ध करने के लिए उनमें उपलब्ध विभिन्न उपकरणों का वर्णन कीजिए ।

13. Discuss the various types of advantages provided by banks. How can the banks reduce the risk involved in them ?

बैंकों द्वारा दिये गये विभिन्न प्रकार के अग्रिमों का वर्णन कीजिए । बैंक उनमें निहित जोखिम कैसे कम कर सकते हैं ?

Or (अथवा)

What are the causes of NPAS in the banks ?
Discuss various tools available to them for managing NPAS. **11**

बैंकों में NPAS के क्या कारण हैं ? NPAS का प्रबन्ध करने के लिए उनमें उपलब्ध विभिन्न उपकरणों का वर्णन कीजिए ।